

GREENLAM/2021-22
February 02, 2022

The Manager

BSE Limited
Department of Corporate Services
Floor 25, P. J. Towers, Dalal Street
Mumbai - 400 001
Fax No. 022-2272-3121/1278/1557/3354
Email: corp.relations@bseindia.com

BSE Scrip Code: 538979

The Manager

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai - 400 051
Fax No. 022-2659-8237/8238/8347/8348
Email: cmlist@nse.co.in

NSE Symbol: GREENLAM

Dear Sir/Madam,

SUB: NEWSPAPERS PUBLICATION – FIXATION OF RECORD DATE

Please find enclosed herewith Newspapers cuttings informing the stakeholders pursuant to relevant provisions of Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, that the Company has fixed **Friday, February 11, 2022** as '**RECORD DATE**' for sub-division/split of face value of the equity shares of the Company from the face value of Rs. 5/- per share to face value of Re. 1/- per share, as published in the Financial Express (English Language) all editions and Jansatta (Hindi) on February 02, 2022.

The above is for your information and record.

Thanking you,
Yours faithfully,

For **GREENLAM INDUSTRIES LIMITED**



PRAKASH KUMAR BISWAL
COMPANY SECRETARY &
VICE PRESIDENT - LEGAL

Greenlam
www.greenlamindustries.com

GREENLAM INDUSTRIES LIMITED
Registered & Corporate Office: 203, 2nd Floor, West Wing, Worldmark 1, Aerocity, IGI Airport, Haryana District, New Delhi-110037, India
Phone No.: +91-11-4279-1399, CIN: L21016DL2013PLC386045
Email: investor.relations@greenlam.com ; Website: www.greenlamindustries.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and relevant provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, notice is hereby given that the Company has fixed **Friday, February 11, 2022** as the 'Record Date' for sub-division/split of face value of the equity shares of the Company from face value of Rs. 5/- per share to face value of Re. 1/- per share.
The information is also made available on the website of the Company at www.greenlamindustries.com and on the websites of the National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com and BSE Limited i.e. www.bseindia.com.

For Greenlam Industries Limited
Sd/-
Prakash Kumar Biswal
Company Secretary &
Vice President-Legal

Date : February 1, 2022
Place : New Delhi

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

INTERWORLD DIGITAL LIMITED
CIN : L72900DL1995PLC067808
Regd. Off. : 701, Anandhal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi- 110001
Phone: 011-43571044-45; Fax: 011-43571047; Website : www.interworlddigital.in; Email : interworlddigital.in@gmail.com
EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2021

Sl. No.	Particulars	Rs. in Lacs		
		For the Quarter ended 31.12.2021 (Un-audited)	For the nine Months ended 31.12.2021 (Un-audited)	For the Quarter ended 31.12.2020 (Un-audited)
1	Total income from operations (net)	39.85	40.37	18.67
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items)	(614.39)	(623.38)	0.50
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	(614.39)	(623.38)	0.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	(614.39)	(623.38)	3.46
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax))	(614.39)	(623.38)	3.46
6	Equity Share Capital	4783.77	4783.77	4783.77
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0.00	0.00	0.00
8	Earnings Per Share (of Re. 1/- each) (for continuing and discontinued operation)	(0.13)	(0.13)	(0.00)
	Basic:	(0.13)	(0.13)	(0.00)
	Diluted:	(0.13)	(0.13)	(0.00)

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results is available on the BSE's website, i.e., www.bseindia.com and on the Company's website www.interworlddigital.in. The above results are prepared in accordance with the Companies (IndAS) Rules, 2015.

For and on behalf of Board Directors of Interworld Digital Limited
Sd/-
Peeyush Kumar Aggarwal
Director
DIN: 00090423

Place: New Delhi
Date: 31.01.2022

Pentokey Organy (India) Ltd.
CIN: L24116MH1986PLC041681
509, Western Edge I, Off Western Express Highway, Borivali East, Mumbai - 400 066.
Tel. No. (91-22) 28545118 email: investors@pentokey.com www.pentokey.com
UNAUDITED STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED 31ST DECEMBER, 2021
₹ in Lakhs

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2021	Quarter Ended 31.12.2020	Year Ended 31.03.2021
		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Revenue	6.72	15.65	6.97
2	Net Profit / (Loss) from ordinary activities before Tax and Exceptional Items	1.11	(17.89)	(5.03)
3	Net Profit / (Loss) for the period after tax (After Exceptional Items)	1.11	(17.89)	(5.03)
4	Total Comprehensive Income for the period	1.15	(17.41)	(4.58)
5	Equity Share Capital	627.26	627.26	627.26
6	Other Equity (Reserves excluding Revaluation Reserve)	-	-	-
7	Earnings per equity share (for continuing operations)			
	Basic:	0.01	(0.29)	(0.08)
	Diluted:	0.01	(0.29)	(0.08)

Notes:
The above is an extract of the detailed format of the financial results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2021 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2021 are available on the Stock Exchange website, www.bseindia.com and the Company's website www.pentokey.com

For Pentokey Organy (India) Limited
Sd/-
Purshottam Kejrival
Director
DIN : 02476745

Place : Mumbai
Date : 31st January, 2022

FINDOC
Financial Services Group

UNION BUDGET 2022-23

National Highway 20,000 crore Good for Infrastructure Development.

400 New Vande Bharat Trains Good for Business and Tourism.

60 Lakh Employments Good for Development and Youth.

#InvestKaroAageBadho
www.myfindoc.com

Ideas Create. Values Protect.

Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2021 (₹ in Crores)

Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
	December 31, 2021 (Reviewed)	September 30, 2021 (Reviewed)	December 31, 2020 (Reviewed)	December 31, 2021 (Reviewed)	December 31, 2020 (Reviewed)	March 31, 2021 (Audited)
1 Total income from operations	1,887.29	1,853.31	2,191.34	5,389.85	6,367.90	10,848.85
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	127.37	40.34	(135.17)	141.80	(409.01)	145.61
3 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	127.37	40.34	(135.17)	141.80	(409.01)	145.61
4 Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	76.19	65.22	(63.00)	166.70	(382.79)	253.91
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	47.21	113.78	(11.92)	125.87	(334.49)	252.11
6 Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 1/- Per Share)	89.81	89.27	89.01	89.81	89.01	89.09
7 Reserves (excluding Revaluation Reserves)	NA	6,099.15	NA	NA	NA	6,030.96
8 Earnings Per Share (EPS) in Rupees (Face Value of ₹ 1/- Per Share)						
- Basic (Not Annualised)	0.79	0.65	(0.78)	1.64	(4.08)	2.98
- Diluted (Not Annualised)	0.79	0.64	(0.78)	1.64	(4.08)	2.97

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended consolidated financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of consolidated financial results are available on the website of Stock exchange (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.edelweissfin.com).
- The consolidated financial results of Edelweiss Financial Services Limited ('EFSL' or 'the Company') and its subsidiaries and trusts (together referred as 'Group') and associates for the quarter and nine months ended 31 December 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 31 January 2022.
- The consolidated financial results of EFSL for the quarter and nine months ended 31 December 2021 have been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors of the Company and the auditors have issued an unmodified review report.

Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2021 (₹ in Crores)

Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
	December 31, 2021 (Reviewed)	September 30, 2021 (Reviewed)	December 31, 2020 (Reviewed)	December 31, 2021 (Reviewed)	December 31, 2020 (Reviewed)	March 31, 2021 (Audited)
1 Total income from operations	438.55	169.33	69.01	793.09	56.41	1,721.88
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	344.80	96.94	(0.80)	513.35	(115.50)	693.92
3 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	344.80	96.94	(0.80)	513.35	(115.50)	693.92
4 Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	333.26	188.93	(0.22)	593.80	(121.26)	716.22
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	333.26	188.93	0.59	593.80	(120.47)	717.17
6 Paid-up equity share capital (Face Value of ₹ 1/- Per Share)	89.81	89.27	89.01	89.81	89.01	89.09
7 Reserves (excluding Revaluation Reserves)	NA	4,252.07	NA	NA	NA	4,036.90
8 Earnings Per Share (EPS) in Rupees (Face Value of ₹ 1/- Per Share)						
- Basic (Not Annualised)	3.73	2.12	(0.003)	6.65	(1.36)	8.05
- Diluted (Not Annualised)	3.72	2.11	(0.003)	6.64	(1.36)	8.01

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended standalone financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of standalone financial results are available on the website of Stock exchange (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.edelweissfin.com).
- The standalone financial results of Edelweiss Financial Services Limited ('EFSL' or 'the Company') for the quarter and nine months ended 31 December 2021 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 31 January 2022.
- The standalone financial results of EFSL for the quarter and nine months ended 31 December 2021 have been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors of the Company and the auditors have issued an unmodified review report.

On behalf of the Board of Directors
Rashesh Shah
Chairman
Mumbai, 31 January 2022

Kirloskar Pneumatic Company Limited
A Kirloskar Group Company
Registered Office:
Hadapsar Industrial Estate, Pune - 411013
CIN: L29120PN1974PLC110307

NOTICE TO THE MEMBERS

This is to inform that the Board of Directors of the Company at its meeting held on 28 January 2022 has declared an Interim Dividend of Rs. 1.60 per Equity Share having Nominal Value of Rs. 2 each (i.e. 80 percent) for the financial year 2021-2022 and has fixed the Record Date as Wednesday, 9 February 2022 for determining eligibility of members to receive dividend and the interim dividend will be paid on or after 24 February 2022.

Pursuant to provisions of the Income-tax Act, 1961 ('the Act') as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by a Company on or after 1 April 2020 shall be taxable in the hands of the shareholders. Therefore, the Company shall be required to deduct Tax at Source ('TDS') at the time of payment of dividend and deposit the same to the credit of the Central Government.

Tax rate applicable to a shareholder depends upon residential status and classification as per the provisions of the Act. All shareholders are thereby requested to update any change in residential status and/or category with depository participants (in case of shares held in electronic form) or with the RTA, i.e. Link Intime India Private Limited (in case of shares held in physical form), as may be applicable, before the Cut-off date i.e. 9 February 2022.

A detailed communication explaining the process on withholding tax on dividend paid to the members at prescribed rates along with the necessary annexures and guidance on updating PAN/ bank account details has been sent by the Company to all those members whose email ID's are registered with the Depositories/RTA on Monday, 31 January 2022.

Application forms for claiming Nil or less rate of TDS by Resident Shareholders [such as Form 15G / Form 15H in case of individuals and self-declaration by entities] and by Non-Resident Shareholders [such as Form 10F and self-declaration] can be downloaded from the website of the RTA at https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html

To enable us to determine applicable rate of TDS / withholding tax, you should upload necessary documents at https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html before Wednesday, 9 February 2022. No communication on tax determination / deduction shall be considered after 9 February 2022.

A Member of the Company holding shares in physical form can register or update details of bank account, to receive dividend, with the RTA at https://web.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html

A Member of the Company holding shares in electronic form can register or update details of bank account to receive dividend with respective Depository Participant.

Documents furnished by the shareholders shall be subject to review and examination by the Company. The Company reserves the right to reject documents in case of any discrepancy or documents are found to be incomplete.

Further the details are also available on the Company's website www.kirloskarpneumatic.com and Stock Exchange website www.bseindia.com

Kindly note that the Company has already sent a communication vide speed post to all its Shareholders holding shares in physical form for furnishing PAN, KYC details & Nomination, etc., pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3 November 2021 read with clarification thereof.

For Kirloskar Pneumatic Company Limited
Sd/-
Jitendra Shah
Company Secretary

Place : Pune
Date : 1 February, 2022

Tel: +91 20 26727000 · Fax: +91 20 26870297
Email: sec@kirloskar.com · Website: www.kirloskarpneumatic.com

Mark bearing word "Kirloskar" in any form as a suffix or prefix is owned by Kirloskar Proprietary Ltd. and Kirloskar Pneumatic Co. Ltd. is the Permitted User.

Edelweiss
Ideas create, values protect

Home Loans | Insurance | Business Loans | Asset Management | Wealth Management

Edelweiss Financial Services Limited
CIN: L99999MH1995PLC094641, Regd. Office: Edelweiss House, Off. CST Road, Kalina, Mumbai - 400 098
Tel: +91-22-4009 4400 Fax: +91-22-4086 3610 Website : www.edelweissfin.com

